

**जनपद जालौन, उत्तर प्रदेश**  
**प्रेस नोट सं0 55, दिनांक 19.10.2021**

थाना एट पुलिस एवं सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 10/11.09.2021 की रात्रि को थाना एट के ग्राम इगुई कला में हुयी हत्या की घटना का सफल अनावरण कर अभियुक्तगण को आलाकत्ल के साथ गिरफ्तार किया गया ।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण –**

1. दुर्गेश कुमार अहिरवार पुत्र आशाराम अहिरवार नि0 नई बस्ती मोतीनगर थाना कालपी जनपद जालौन
2. मोहित कुमार पुत्र चतुर्भुज अहिरवार नि0 इगुईकला थाना एट जनपद जालौन

**वान्छित अभियुक्त का विवरण-**

1. सुरेन्द्र पुत्र बालेश्वर नि0 ग्राम इगुई कला थाना एट जनपद जालौन

**बरामदगी का विवरण –**

1. 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस
2. 02 अदद मोबाइल फोन

**घटना का संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 11.09.2021 को वादी श्री रामलखन पुत्र स्व0 श्रीलाल नि0 ग्राम इगुई कला थाना एट जनपद जालौन ने तहरीरी सूचना दी कि दिनांक 10/11.09.2021 की रात्रि को मेरे पुत्र रामसेवक उम्र करीब 42 वर्ष घर के बाहर सो रहा था, जिसकी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके सम्बन्ध में थाना एट पर मु0अ0सं0 162/21 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था ।

पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल निर्देशन में रोकथाम अपराध, उक्त हत्या की घटना में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी कोंच के कुशल नेतृत्व में थाना एट पुलिस एवं एसओजी व सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम को लगाया गया था ।

**गिरफ्तारी का स्थान , दिनांक व समय –**

थाना एट पुलिस एवं एसओजी व सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम द्वारा अत्यन्त परिश्रमपूर्वक ढंग से कार्य करते हुये महत्वपूर्ण जमीनी साक्ष्य एकत्र कर थाना क्षेत्र में रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे, वाहन चोर / वांछित अपराधी एवं पतारसी सुरागरसी के दौरान मुखबिर की सूचना पर पिण्डारी मोड़ के पास से दिनांक 19.10.2021 को गिरफ्तार किया गया एवं अभियुक्त की निशादेही पर आलाकत्ल बरामद किये गये ।

पूछताछ में अभियुक्त दुर्गेश ने बताया कि मेरी मौसी ग्राम इगुई में ब्याहीं हैं उनका लड़का मानसिक रूप से विछिन्न था उसको मृतक रामसेवक ने तंत्रमंत्र से ठीक करने का वादा किया था परन्तु रामसेवक के तंत्रमंत्र से उसकी हालत और खराब हो गयी जिससे उसकी मृत्यू हो गयी थी इसी बात से हम लोग काफी नाराज थे इसलिये मैने अपनी मौसी के लड़के सुरेन्द्र पुत्र बालेश्वर नि0 ग्राम इगुईकला थाना एट के साथ मिलकर दिनांक 10/11.09.2021 की रात्रि में ग्राम इगुईकला में रामसेवक की उसके घर के बाहर सोते समय सिर में गोली मार कर हत्या कर दी थी, रामसेवक के बारे में समस्त जानकारियाँ मोहित के द्वारा दी गयी थीं ।

## गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. प्र0नि0 श्री विनय दिवाकर थाना एट
2. नि0 जितेन्द्र सिंह
3. उ0नि0 श्री कुल भुषण सिंह प्रभारी सर्विलांस सेल
4. उ0नि0 श्री गोकुल सिंह थाना एट
5. उ0नि0 श्री रवि मिश्रा
6. उ0नि0 श्री राजकुमार
7. उ0नि0 श्री योगेन्द्र शर्मा
8. उ0नि0 श्री रवि कुमार
9. हे0का0 167 मनोज कुमार सर्विलांस सेल
- 10.का0 1539 रोहित सिंह सर्विलांस सेल
- 11.का0 1327 जगदीश चन्द्र सर्विलांस सेल
- 12.का0 1080 करमवीर सिंह सर्विलांस सेल
- 13.का0 1610 रोहित गुर्जर थाना एट
- 14.का0 2012 अमर सिंह थाना एट
- 15.का0 1874 जितेन्द्र कुमार थाना एट
- 16.म0का0 शबनम थाना एट
- 17.आ0चा0 देवदत्त थाना एट